



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 19 नवम्बर, 2020
कार्तिक 28, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश

संख्या 4/782-2020-4-128(जौनपुर)-2014
लखनऊ, 19 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-317

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149/94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायतीराज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायतीराज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायतीराज, उ० प्र०, लखनऊ, पंचायतीराज अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद जौनपुर की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/486/2015-4/128 (जौनपुर)-2014, दिनांक 9 मार्च, 2015 एवं अधिसूचना संख्या 4/811/2017-4/128 (जौनपुर)-2014, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 में विकास खण्ड सिरकोनी, धर्मापुर एवं रामपुर की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों एतद्वारा स्थापित करती हूँ।

सारिणी

जनपद-जौनपुर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	सिरकोनी	खलीलपुर	खलीलपुर	1	सिरकोनी	खलीलपुर	खलीलपुर
	सिरकोनी		रैभानीपुर		सिरकोनी		रैभानीपुर
	सिरकोनी		कादीपुर		सिरकोनी		कादीपुर
	सिरकोनी		मदारपुर नं० 3		सिरकोनी		मदारपुर नं० 3
	सिरकोनी		मदारपुर न० 4		सिरकोनी		मदारपुर न० 4
2	सिरकोनी	हरबसपुर	हरबसपुर	2	सिरकोनी	हरबसपुर	हरबसपुर
	सिरकोनी		मदारपुर दोयम		सिरकोनी		मदारपुर दोयम
3	सिरकोनी	इसमैला	इसमैला	3	सिरकोनी	इसमैला	इसमैला
	सिरकोनी		परानपट्टी		सिरकोनी		परानपट्टी
	सिरकोनी		मु० सराय जोगी		सिरकोनी		मु० सराय जोगी
4	सिरकोनी	शिवापार	शिवापार	4	सिरकोनी	शिवापार	शिवापार
5	सिरकोनी	कुददूपुर	कुददूपुर	5	सिरकोनी	कुददूपुर	कुददूपुर
6	सिरकोनी	नेवादा	नेवादा	6	सिरकोनी	नेवादा	नेवादा
7	सिरकोनी	चकपहलवानताहिर	चकपहलवानताहिर	7	सिरकोनी	चकपहलवानताहिर	चकपहलवानताहिर
	सिरकोनी		अराजी नेवादा		सिरकोनी		अराजी नेवादा
	सिरकोनी		रामदासपुर		सिरकोनी		रामदासपुर
8	सिरकोनी	गोधना	गोधना	8	सिरकोनी	गोधना	गोधना
	सिरकोनी		इलिमपुर		सिरकोनी		इलिमपुर
9	सिरकोनी	गहोरा	गहोरा	9	सिरकोनी	गहोरा	गहोरा
	सिरकोनी		चकधुस		सिरकोनी		चकधुस
10	सिरकोनी	आसमानपट्टी	आसमानपट्टी	10	सिरकोनी	आसमानपट्टी	आसमानपट्टी
11	सिरकोनी	जमैथा	जमैथा	11	सिरकोनी	जमैथा	जमैथा
12	सिरकोनी	नाथूपुर	नाथूपुर	12	सिरकोनी	नाथूपुर	नाथूपुर
	सिरकोनी		खानकाह		सिरकोनी		खानकाह
13	सिरकोनी	बसीरपुर	बसीरपुर	13	सिरकोनी	बसीरपुर	बसीरपुर
	सिरकोनी		तातरपुर जमैथा		सिरकोनी		तातरपुर जमैथा
14	सिरकोनी	अहमदपुर	अहमदपुर	14	सिरकोनी	अहमदपुर	अहमदपुर
15	सिरकोनी	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	15	सिरकोनी	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
	सिरकोनी		राजेपुर		सिरकोनी		राजेपुर
	सिरकोनी		रामदासपुर		सिरकोनी		रामदासपुर
	सिरकोनी		हरिबल्लमपुर		सिरकोनी		हरिबल्लमपुर
	सिरकोनी		मीरगोसईपुर		सिरकोनी		मीरगोसईपुर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
16	सिरकोनी	कल्यानपुर	कल्यानपुर	16	सिरकोनी	कल्यानपुर	कल्यानपुर
	सिरकोनी		जैतपुर		सिरकोनी		जैतपुर
	सिरकोनी		चक घाटमपुर		सिरकोनी		चक घाटमपुर
	सिरकोनी		बैरागर		सिरकोनी		बैरागर
	सिरकोनी		पैकड़ा		सिरकोनी		पैकड़ा
17	सिरकोनी	मोथहा	मोथहा	17	सिरकोनी	मोथहा	मोथहा
	सिरकोनी		गजपफरपुर		सिरकोनी		गजपफरपुर
18	सिरकोनी	सुंगुलपुर	सुंगुलपुर	18	सिरकोनी	सुंगुलपुर	सुंगुलपुर
	सिरकोनी		रसूलपुर		सिरकोनी		रसूलपुर
19	सिरकोनी	बीबीपुर	बीबीपुर	19	सिरकोनी	बीबीपुर	बीबीपुर
20	सिरकोनी	मुस्तफाबाद	मुस्तफाबाद	20	सिरकोनी	मुस्तफाबाद	मुस्तफाबाद
	सिरकोनी		शाहबडेपुर		सिरकोनी		शाहबडेपुर
	सिरकोनी		लाडनपुर		सिरकोनी		लाडनपुर
	सिरकोनी		घी शक्कर		सिरकोनी		घी शक्कर
	सिरकोनी		अराजी दरीबा		सिरकोनी		अराजी दरीबा
21	सिरकोनी	हौज	हौज	21	सिरकोनी	हौज	हौज
	सिरकोनी		मरदानपुर		सिरकोनी		मरदानपुर
	सिरकोनी		कुतुलपुर		सिरकोनी		कुतुलपुर
	सिरकोनी		देवचन्दपुर		सिरकोनी		देवचन्दपुर
	सिरकोनी		चकचड़िया		सिरकोनी		चकचड़िया
22	सिरकोनी	समोपुर	समोपुर	22	सिरकोनी	समोपुर	समोपुर
	सिरकोनी		शेख आलमपुर		सिरकोनी		शेख आलमपुर
	सिरकोनी		जहांगीरपुर		सिरकोनी		जहांगीरपुर
23	सिरकोनी	हीरापुर	हीरापुर	23	सिरकोनी	हीरापुर	हीरापुर
	सिरकोनी		जमालपुर		सिरकोनी		जमालपुर
	सिरकोनी		सुरहुरपुर		सिरकोनी		सुरहुरपुर
	सिरकोनी		भूपतपुर		सिरकोनी		भूपतपुर
24	सिरकोनी	रासीपुर	रासीपुर	24	सिरकोनी	रासीपुर	रासीपुर
	सिरकोनी		रमदत्तपुर		सिरकोनी		रमदत्तपुर
25	सिरकोनी	कादीपुर	कादीपुर	25	सिरकोनी	कादीपुर	कादीपुर
	सिरकोनी		भगवानपुर		सिरकोनी		भगवानपुर
	सिरकोनी		साहनवाजपुर		सिरकोनी		साहनवाजपुर
	सिरकोनी		संघईपुर		सिरकोनी		संघईपुर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
26	सिरकोनी	गोंडाखास	गोंडाखास	26	सिरकोनी	गोंडाखास	गोंडाखास
	सिरकोनी		गोंडा न० 1		सिरकोनी		गोंडा न० 1
	सिरकोनी		गोंडा न० 2		सिरकोनी		गोंडा न० 2
	सिरकोनी		गोंडा न० 3		सिरकोनी		गोंडा न० 3
	सिरकोनी		दाउदपुर		सिरकोनी		दाउदपुर
	सिरकोनी		समसखानपुर		सिरकोनी		समसखानपुर
	सिरकोनी		कठियारे बांध		सिरकोनी		कठियारे बांध
	सिरकोनी		पिपरिया कला		सिरकोनी		पिपरिया कला
	सिरकोनी		चकवाजिदपुर		सिरकोनी		चकवाजिदपुर
	सिरकोनी		तरकुल्लापुर		सिरकोनी		तरकुल्लापुर
	सिरकोनी		पिपरिया खुर्द		सिरकोनी		पिपरिया खुर्द
	सिरकोनी		टकटकपुर		सिरकोनी		टकटकपुर
	सिरकोनी		जियापट्टी		सिरकोनी		जियापट्टी
	सिरकोनी		खोजनपुर		सिरकोनी		खोजनपुर
27	सिरकोनी	शंकरपुर	शंकरपुर	27	सिरकोनी	शंकरपुर	शंकरपुर
	सिरकोनी		कुतलूपुर		सिरकोनी		कुतलूपुर
	सिरकोनी		फखरुद्दीनपुर		सिरकोनी		फखरुद्दीनपुर
	सिरकोनी		चक कोठा		सिरकोनी		चक कोठा
28	सिरकोनी	जगदीशपुर	जगदीशपुर	28	सिरकोनी	जगदीशपुर	जगदीशपुर
			असरफपुर				असरफपुर
			चकमिरदहॉ				चकमिरदहॉ
			खोरवां				खोरवां
29	सिरकोनी	फरीदपुर	फरीदपुर	29	सिरकोनी	फरीदपुर	फरीदपुर
	सिरकोनी		हरजूपुर		सिरकोनी		हरजूपुर
	सिरकोनी		नसीरपुर		सिरकोनी		नसीरपुर
	सिरकोनी		मिसिरपुर		सिरकोनी		मिसिरपुर
	सिरकोनी		सहाबुद्दीनपुर		सिरकोनी		सहाबुद्दीनपुर
30	सिरकोनी	महरूपुर	महरूपुर	30	सिरकोनी	महरूपुर	महरूपुर
31	सिरकोनी	गद्दीपुर	गद्दीपुर		सिरकोनी	ग्राम पंचायत गद्दीपुर को नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2099/9-1-2019-16टी०ए०-16, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत कजगाव में समाहित।	

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
	सिरकोनी	गद्दीपुर	अहियोफी	31	सिरकोनी	चकताली	चकताली
	सिरकोनी		चकताली		सिरकोनी		अहियोफी
	सिरकोनी		मखदूमपुर		सिरकोनी		मखदूमपुर
32	सिरकोनी	बैजाबांध	बैजाबांध	32	सिरकोनी	बैजाबांध	बैजाबांध
	सिरकोनी		जैठपुरा		सिरकोनी		जैठपुरा
33	सिरकोनी	सैदाबाद	सैदाबाद	33	सिरकोनी	सैदाबाद	सैदाबाद
	सिरकोनी		मोबइया		सिरकोनी		मोबइया
34	सिरकोनी	माधोपट्टी	माधोपट्टी,		सिरकोनी	ग्राम पंचायत माधोपट्टी को	नगर विकास
	सिरकोनी		रामपुर		सिरकोनी	अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2099/9-1-2019-16टी०ए०-16, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत कजगाव में पूर्ण रूप से समाहित।	
35	सिरकोनी	सादात मसौड़ा	सादाता मसौड़ा		सिरकोनी	ग्राम पंचायत सादात मसौड़ा को	नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2099/9-1-2019-16टी०ए०-16, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत कजगाव में पूर्ण रूप से समाहित।
36	सिरकोनी	राजेपुर प्रथम	राजेपुर प्रथम	34	सिरकोनी	राजेपुर प्रथम	राजेपुर प्रथम
	सिरकोनी		देवकली खुर्द				देवकलीखुर्द
37	सिरकोनी	सादीपुर	सादीपुर	35	सिरकोनी	सादीपुर	सादीपुर
38	सिरकोनी	बन्दीपुर	बन्दीपुर	36	सिरकोनी	बन्दीपुर	बन्दीपुर
39	सिरकोनी	सुरहुरपुर	सुरहुरपुर	37	सिरकोनी	सुरहुरपुर	सुरहुरपुर
	सिरकोनी		चक मिरदहा		सिरकोनी		चक मिरदहा
	सिरकोनी		चक सुरहुरपुर		सिरकोनी		चक सुरहुरपुर
40	सिरकोनी	बेलवारामसागर	बेलवा राम सोगर	38	सिरकोनी	बेलवारामसागर	बेलवा राम सोगर
	सिरकोनी		जैरामपट्टी		सिरकोनी		जैरामपट्टी
41	सिरकोनी	अमदहां	अमदहा	39	सिरकोनी	अमदहां	अमदहा
42	सिरकोनी	परियांवा	परियांवा	40	सिरकोनी	परियांवा	परियांवा
43	सिरकोनी	गोपीपुर	गोपीपुर	41	सिरकोनी	गोपीपुर	गोपीपुर
	सिरकोनी		दूल्हेपुर		सिरकोनी		दूल्हेपुर
	सिरकोनी		देवकली कला		सिरकोनी		देवकली कला
44	सिरकोनी	सलखापुर	सलखापुर	42	सिरकोनी	सलखापुर	सलखापुर
	सिरकोनी		चक सलखापुर		सिरकोनी		चक सलखापुर
	सिरकोनी		सुई		सिरकोनी		सुई

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
45	सिरकोनी	घनेजा	घनेजा	43	सिरकोनी	घनेजा	घनेजा
46	सिरकोनी	विशुनपुर मझवारा	विसुनपुर मझवारा	44	सिरकोनी	विशुनपुर मझवारा	विसुनपुर मझवारा
47	सिरकोनी	शिवपुर	शिवपुर	45	सिरकोनी	शिवपुर	शिवपुर
	सिरकोनी		नवाद जंगल		सिरकोनी		नवाद जंगल
48	सिरकोनी	हूंसेपुर	हूंसेपुर	46	सिरकोनी	हूंसेपुर	हूंसेपुर
49	सिरकोनी	खरचलपुर	खरचलपुर	47	सिरकोनी	खरचलपुर	खरचलपुर
50	सिरकोनी	कबूलपुर	कबूलपुर	48	सिरकोनी	कबूलपुर	कबूलपुर
	सिरकोनी		सेधीपुर		सिरकोनी		सेधीपुर
	सिरकोनी		मसूदपुर		सिरकोनी		मसूदपुर
	सिरकोनी		अरजानीपुर		सिरकोनी		अरजानीपुर
51	सिरकोनी	जलालुद्दीनपुर	जलालुद्दीनपुर	49	सिरकोनी	जलालुद्दीनपुर	जलालुद्दीनपुर
	सिरकोनी		बनवारीपुर		सिरकोनी		बनवारीपुर
	सिरकोनी		चकिया हसनपुर		सिरकोनी		चकिया हसनपुर
	सिरकोनी		मोहिद्दीनपुर		सिरकोनी		मोहिद्दीनपुर
	सिरकोनी		नत्थनपुर		सिरकोनी		नत्थनपुर
	सिरकोनी		नीलकंठपुर		सिरकोनी		नीलकंठपुर
52	सिरकोनी	नेहरूनगर	नेहरूनगर उर्फ विरभानपुर	50	सिरकोनी	नेहरूनगर	नेहरूनगर उर्फ विरभानपुर
	सिरकोनी		सैदनपुर		सिरकोनी		सैदनपुर
	सिरकोनी		चांदकिता		सिरकोनी		चांदकिता
53	सिरकोनी	गयासपुर	गयासपुर	51	सिरकोनी	गयासपुर	गयासपुर
	सिरकोनी		नाहरपुर		सिरकोनी		नाहरपुर
	सिरकोनी		सैदपुर		सिरकोनी		सैदपुर
54	सिरकोनी	केशवपुर	केशवपुर	52	सिरकोनी	केशवपुर	केशवपुर
	सिरकोनी		सरखोई		सिरकोनी		सरखोई
	सिरकोनी		समोगर		सिरकोनी		समोगर
55	सिरकोनी	बहरीपुर	बहरीपुर	53	सिरकोनी	बहरीपुर	बहरीपुर
	सिरकोनी		नवाबाद जंगलबहादुरपुर		सिरकोनी		नवाबाद जंगलबहादुरपुर
	सिरकोनी		जगदीशपुर		सिरकोनी		जगदीशपुर
	सिरकोनी		मुख्तारपुर		सिरकोनी		मुख्तारपुर
56	सिरकोनी	कोतवालपुर	कोलवालपुर	54	सिरकोनी	कोतवालपुर	कोलवालपुर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
57	सिरकोनी	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	55	सिरकोनी	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
	सिरकोनी		चकधारी		सिरकोनी		चकधारी
	सिरकोनी		कोटिलापुर		सिरकोनी		कोटिलापुर
	सिरकोनी		रमसापुर		सिरकोनी		रमसापुर
	सिरकोनी		उत्तमपुर		सिरकोनी		उत्तमपुर
	सिरकोनी		नसीराबाद		सिरकोनी		नसीराबाद
	सिरकोनी		किसुनदासपुर		सिरकोनी		किसुनदासपुर
58	सिरकोनी	बदलपुर	बदलपुर	56	सिरकोनी	बदलपुर	बदलपुर
	सिरकोनी		दलपतपट्टी		सिरकोनी		दलपतपट्टी
	सिरकोनी		ख्वाजापुर		सिरकोनी		ख्वाजापुर
59	सिरकोनी	राजेपुर द्वितीय	राजेपुर द्वितीय	57	सिरकोनी	राजेपुर द्वितीय	राजेपुर द्वितीय
	सिरकोनी		हैदरपुर		सिरकोनी		हैदरपुर
60	सिरकोनी	भगरी	भगरी	58	सिरकोनी	भगरी	भगरी
61	सिरकोनी	सेहमलपुर	सेहमलपुर	59	सिरकोनी	सेहमलपुर	सेहमलपुर
62	सिरकोनी	ताला मझवारा	तालामझवारा	60	सिरकोनी	ताला मझवारा	तालामझवारा
63	सिरकोनी	बाकराबाद	बाकराबाद	61	सिरकोनी	बाकराबाद	बाकराबाद
	सिरकोनी		बैरीपुर		सिरकोनी		बैरीपुर
	सिरकोनी		चकबेदा		सिरकोनी		चकबेदा
	सिरकोनी		अराजी भूपतपट्टी		सिरकोनी		अराजी भूपतपट्टी
64	सिरकोनी	सिरकोनी	सिरकोनी	62	सिरकोनी	सिरकोनी	सिरकोनी
65	सिरकोनी	बहादुरपुर	बहादुरपुर	63	सिरकोनी	बहादुरपुर	बहादुरपुर
66	सिरकोनी	इजरी	इजरी	64	सिरकोनी	इजरी	इजरी
	सिरकोनी		कोड़री		सिरकोनी		कोड़री
	सिरकोनी		ऐतकादपुर		सिरकोनी		ऐतकादपुर
67	सिरकोनी	मनहन	महन	65	सिरकोनी	मनहन	महन
68	सिरकोनी	रसूलपुर	रसूलपुर	66	सिरकोनी	रसूलपुर	रसूलपुर
1	धर्मापुर	बन्जारेपुर	बन्जारेपुर		धर्मापुर	ग्राम पंचायत बंजारेपुर एवं राजस्व ग्राम कर्मदासपुर को नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2794 / नौ-1-2019-56सा-12, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत गौराबादशाहपुर में पूर्ण रूप से समाहित।	
	धर्मापुर		कर्मदासपुर		धर्मापुर		

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
2	धर्मापुर	गौरा	गौरा		धर्मापुर	ग्राम पंचायत गौरा को नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2794 / नौ-1-2019-56सा-12, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत गौराबादशाहपुर में पूर्ण रूप से समाहित।	
3	धर्मापुर	चोरसण्ड	चोरसण्ड		धर्मापुर	ग्राम पंचायत चोरसण्ड को नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2794 / नौ-1-2019-56सा-12, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत गौराबादशाहपुर में पूर्ण रूप से समाहित।	
4	धर्मापुर	सखैला	सखैला		धर्मापुर	ग्राम पंचायत सखैला को नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2794 / नौ-1-2019-56सा-12, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत गौराबादशाहपुर में पूर्ण रूप से समाहित।	
5	धर्मापुर	विथार	विथार	1	धर्मापुर	विथार	विथार
6	धर्मापुर	दखान	दखान		धर्मापुर	ग्राम पंचायत दखान को नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2794 / नौ-1-2019-56सा-12, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत गौराबादशाहपुर में समाहित।	
	धर्मापुर		राजेपुर	2	धर्मापुर	राजेपुर द्वितीय	राजेपुर द्वितीय
	धर्मापुर		रसूलपुर		धर्मापुर		रसूलपुर
	धर्मापुर		सरायज्ञानचन्द		धर्मापुर		सरायज्ञानचन्द
7	धर्मापुर	चौकीपिलखुआ	चौकीपिलखुआ	3	धर्मापुर	चौकीपिलखुआ	चौकीपिलखुआ
8	धर्मापुर	बमैला	बमैला		धर्मापुर	ग्राम पंचायत बमैला को नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या-2794 / नौ-1-2019-56 सा / 12 दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत गौराबादशाहपुर में पूर्ण रूप से समाहित।	
9	धर्मापुर	पिलखिनी	पिलखिनी	4	धर्मापुर	पिलखिनी	पिलखिनी
10	धर्मापुर	सरसौडा	सरसौडा	5	धर्मापुर	सरसौडा	सरसौडा
	धर्मापुर		रामपुर		धर्मापुर		रामपुर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
11	धर्मापुर	गोविंदपुरमनीहा	गोविंदपुरमनीहा	6	धर्मापुर	गोविंदपुरमनीहा	गोविंदपुरमनीहा
12	धर्मापुर	विशुनपुरवशवत	विशुनपुरवशवत	7	धर्मापुर	विशुनपुरवशवत	विशुनपुरवशवत
	धर्मापुर		समाधीपुर		धर्मापुर		समाधीपुर
13	धर्मापुर	खटोलिया	खटोलिया	8	धर्मापुर	खटोलिया	खटोलिया
	धर्मापुर		मगरांवा		धर्मापुर		मगरांवा
14	धर्मापुर	कुरेथू	कुरेथू	9	धर्मापुर	कुरेथू	कुरेथू
15	धर्मापुर	बघन्दरा	बघन्दरा	10	धर्मापुर	बघन्दरा	बघन्दरा
16	धर्मापुर	सोनारी	सोनारी	11	धर्मापुर	सोनारी	सोनारी
17	धर्मापुर	सरेमू	सरेमू	12	धर्मापुर	सरेमू	सरेमू
18	धर्मापुर	कोतवालपुर	कोतवालपुर	13	धर्मापुर	कोतवालपुर	कोतवालपुर
	धर्मापुर		चकपिढ़वा		धर्मापुर		चकपिढ़वा
	धर्मापुर		लैतरी		धर्मापुर		लैतरी
19	धर्मापुर	कुछमुछ	कुछमुछ	14	धर्मापुर	कुछमुछ	कुछमुछ
	धर्मापुर		एकौना		धर्मापुर		एकौना
	धर्मापुर		वालेमऊ		धर्मापुर		वालेमऊ
	धर्मापुर		नरेन्द्रपुर		धर्मापुर		नरेन्द्रपुर
20	धर्मापुर	गद्दोपुर	गद्दोपुर	15	धर्मापुर	गद्दोपुर	गद्दोपुर
	धर्मापुर		कौआपार		धर्मापुर		कौआपार
21	धर्मापुर	गोपालपुर	गोपालपुर	16	धर्मापुर	गोपालपुर	गोपालपुर
	धर्मापुर		असदा		धर्मापुर		असदा
	धर्मापुर		बेलखरा		धर्मापुर		बेलखरा
22	धर्मापुर	गजना	गजना	17	धर्मापुर	गजना	गजना
	धर्मापुर		मीरपुर		धर्मापुर		मीरपुर
23	धर्मापुर	नयनसण्ड	नयनसण्ड		धर्मापुर	ग्राम पंचायत नयनसण्ड को नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2794 / नौ-1-2019-56सा-12, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत गौराबादशाहपुर में समाहित।	
	धर्मापुर		खरगाजीपुर		धर्मापुर	राजस्व ग्राम-खगाजीपुर को नजदीकी ग्राम पंचायत तरसण्ड में सम्मिलित।	

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
24	धर्मापुर	तरसण्ड	तरसण्ड	18	धर्मापुर	तरसण्ड	तरसण्ड
	धर्मापुर		केयरमऊ		धर्मापुर		केयरमऊ
							खरगाजीपुर
25	धर्मापुर	कबीरुद्दीनपुर	कबीरुद्दीनपुर	19	धर्मापुर	कबीरुद्दीनपुर	कबीरुद्दीनपुर
26	धर्मापुर	केशवपुर	केशवपुर	20	धर्मापुर	केशवपुर	केशवपुर
	धर्मापुर		मुस्तफाबाद		धर्मापुर		मुस्तफाबाद
	धर्मापुर		चौकियायाकूब		धर्मापुर		चौकियायाकूब
27	धर्मापुर	राजेपुर	राजेपुर	21	धर्मापुर	राजेपुर	राजेपुर
	धर्मापुर		गोपालपुर		धर्मापुर		गोपालपुर
28	धर्मापुर	रामपुरजमीन हिसामपुर	रामपुर जमीनहिसामपुर	22	धर्मापुर	रामपुरजमीन हिसामपुर	रामपुर जमीनहिसामपुर
			घन्नेपुर				घन्नेपुर
			छबीलेपुर				छबीलेपुर
			इब्राहिमपुर				इब्राहिमपुर
			भवानीपुर				भवानीपुर
			हिसामपुर				हिसामपुर
			रसूलपुर				रसूलपुर
			एमतादपुर				एमतादपुर
			अकबरपुर आदम				अकबरपुर आदम
29	धर्मापुर	खलसहा	खलसहा	23	धर्मापुर	खलसहा	खलसहा
	धर्मापुर		चकलक्षमनपुर		धर्मापुर		चकलक्षमनपुर
	धर्मापुर		बलभद्रपुर		धर्मापुर		बलभद्रपुर
30	धर्मापुर	चौकीपुर	चौकीपुर	24	धर्मापुर	चौकीपुर	चौकीपुर
			चकपचहटिया				चकपचहटिया
			आराजी भगौतीपुर				आराजी भगौतीपुर
31	धर्मापुर	करमही	करमही	25	धर्मापुर	करमही	करमही
	धर्मापुर		मोलनापुर		धर्मापुर		मोलनापुर
32	धर्मापुर	सरैया	सरैया	26	धर्मापुर	सरैया	सरैया
	धर्मापुर		पहेतिया		धर्मापुर		पहेतिया
	धर्मापुर		वजहुद्दीनपुर		धर्मापुर		वजहुद्दीनपुर
	धर्मापुर		भूलेमऊ		धर्मापुर		भूलेमऊ
33	धर्मापुर	किर्तापुर	किर्तापुर	27	धर्मापुर	किर्तापुर	किर्तापुर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
34	धर्मापुर	कमरूद्दीनपुर	कमरूद्दीनपुर	28	धर्मापुर	कमरूद्दीनपुर	कमरूद्दीनपुर
35	धर्मापुर	कादीपुर	कादीपुर	29	धर्मापुर	कादीपुर	कादीपुर
	धर्मापुर		तुलसीपुर		धर्मापुर		तुलसीपुर
	धर्मापुर		पवना		धर्मापुर		पवना
36	धर्मापुर	धर्मापुर	धर्मापुर	30	धर्मापुर	धर्मापुर	धर्मापुर
37	धर्मापुर	मोहिद्दीनपुर	मोहिद्दीनपुर	31	धर्मापुर	मोहिद्दीनपुर	मोहिद्दीनपुर
	धर्मापुर		कोड्डा		धर्मापुर		कोड्डा
38	धर्मापुर	उतरगॉवा	उतरगॉवा	32	धर्मापुर	उतरगॉवा	उतरगॉवा
39	धर्मापुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	33	धर्मापुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
	धर्मापुर		विहरोजपुर		धर्मापुर		विहरोजपुर
40	धर्मापुर	पाण्डेयपट्टी	पाण्डेयपट्टी	34	धर्मापुर	पाण्डेयपट्टी	पाण्डेयपट्टी
	धर्मापुर		इमलो		धर्मापुर		इमलो
	धर्मापुर		चककटुई		धर्मापुर		चककटुई
	धर्मापुर		चकरहट्टा		धर्मापुर		चकरहट्टा
41	धर्मापुर	मुहम्मदपुर कान्ह	मुहम्मदपुर कान्ह	35	धर्मापुर	मुहम्मदपुर कान्ह	मुहम्मदपुर कान्ह
	धर्मापुर		कलन्दपुर		धर्मापुर		कलन्दपुर
	धर्मापुर		बागमुर्तजा		धर्मापुर		बागमुर्तजा
	धर्मापुर		चकनीदन		धर्मापुर		चकनीदन
42	धर्मापुर	समोरपुरकला	समोरपुरकला	36	धर्मापुर	समोरपुरकला	समोरपुरकला
	धर्मापुर		चकगोपालपुर		धर्मापुर		चकगोपालपुर
	धर्मापुर		काकापुर		धर्मापुर		काकापुर
	धर्मापुर		जमलापुर		धर्मापुर		जमलापुर
	धर्मापुर		इमलोनमकसार		धर्मापुर		इमलोनमकसार
43	धर्मापुर	रायपुर	रायपुर	37	धर्मापुर	रायपुर	रायपुर
	धर्मापुर		चकहुसेनाबाद		धर्मापुर		चकहुसेनाबाद
	धर्मापुर		गोसाईपुर		धर्मापुर		गोसाईपुर
44	धर्मापुर	पिन्दरा	पिन्दरा	38	धर्मापुर	पिन्दरा	पिन्दरा
	धर्मापुर		समैसा		धर्मापुर		समैसा
45	धर्मापुर	रत्तीपुर	रत्तीपुर	39	धर्मापुर	रत्तीपुर	रत्तीपुर
	धर्मापुर		चौकियापट्टीपदुमपुर		धर्मापुर		चौकियापट्टीपदुमपुर
	धर्मापुर		चकमदरसा		धर्मापुर		चकमदरसा

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
	धर्मापुर	रत्तीपुर	चौकियाहोला		धर्मापुर	रत्तीपुर	चौकियाहोला
	धर्मापुर		रसूलही		धर्मापुर		रसूलही
	धर्मापुर		अस्मानचक		धर्मापुर		अस्मानचक
674	रामपुर	रामपुर	रामपुर		रामपुर	ग्राम पंचायत रामपुर को नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2865/9-1-2019-06टी०ए०-14, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत रामपुर में पूर्ण रूप से समाहित।	
675	रामपुर	घनुआ	घनुआ		रामपुर	ग्राम पंचायत धनुहा को नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2865/9-1-2019-06टी०ए०-14, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत रामपुर में पूर्ण रूप से समाहित।	
676	रामपुर	रसूलहा	रसूलहा	1	रामपुर	रसूलहा	रसूलहा
	रामपुर		खेमापुर		रामपुर	राजस्व ग्राम खेमापुर को नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2865/9-1-2019-06 टी०ए०-14, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत रामपुर में पूर्ण रूप से समाहित।	
677	रामपुर	कोटिगांव	कोटिगांव	2	रामपुर	कोटिगांव	कोटिगांव
678	रामपुर	मई	मई		रामपुर	ग्राम पंचायत मई को नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2865/9-1-2019-06टी०ए०-14, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत रामपुर में पूर्ण रूप से समाहित।	
	रामपुर		बहेडुआ		रामपुर	राजस्व ग्राम-बहेडुवा को नजदीकी ग्राम पंचायत-सकरा में सम्मिलित।	
679	रामपुर	राघोरामपट्टी	राघोरामपट्टी	3	रामपुर	राघोरामपट्टी	राघोरामपट्टी
	रामपुर		राघोरामपट्टी अक्वल		रामपुर		राघोरामपट्टी अक्वल
	रामपुर		राघोरामपट्टी दोयम		रामपुर		राघोरामपट्टी दोयम
	रामपुर		राघोरामपट्टी माफी		रामपुर	राजस्व ग्राम राघोरामपट्टी माफी को नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2865/9-1-2019-06टी०ए०-14, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत रामपुर में पूर्णरूप से समाहित।	

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
680	रामपुर	आशानन्दपुर	आशानन्दपुर	4	रामपुर	आशानन्दपुर	आशानन्दपुर
	रामपुर		सहनपुर		रामपुर	राजस्व ग्राम सहनपुर को नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2865/9-1-2019-06टी०ए०-14, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत रामपुर में पूर्णरूप से समाहित।	
681	रामपुर	नरहरपुर	नरहरपुर	5	रामपुर	नरहरपुर	नरहरपुर
	रामपुर		कटौना		रामपुर		कटौना
	रामपुर		माधोरामपुर		रामपुर		माधोरामपुर
	रामपुर		बेसहनपुर		रामपुर		बेसहनपुर
682	रामपुर	फजुलहां	फजुलहां	6	रामपुर	फजुलहां	फजुलहां
	रामपुर		मालपुर		रामपुर	राजस्व ग्राम मालपुर एवं भीमपुर को नगर विकास अनुभाग-1 उ० प्र० शासन के अधिसूचना संख्या 2865/9-1-2019-06टी०ए०-14, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत रामपुर में पूर्ण रूप से समाहित।	
	रामपुर		भीमपुर		रामपुर		
683	रामपुर	आशापुर	आशापुर	7	रामपुर	आशापुर	आशापुर
684	रामपुर	कोदैला	कोदैला	8	रामपुर	कोदैला	कोदैला
	रामपुर		मिश्रौटी		रामपुर		मिश्रौटी
685	रामपुर	बीकापुर	बीकापुर	9	रामपुर	बीकापुर	बीकापुर
	रामपुर		जगदीशपुर		रामपुर		जगदीशपुर
686	रामपुर	खेमापुर	खेमापुर	10	रामपुर	खेमापुर	खेमापुर
	रामपुर		दूबेपुर		रामपुर		दूबेपुर
687	रामपुर	बनीडीह	बनीडीह	11	रामपुर	बनीडीह	बनीडीह
	रामपुर		खरगूपुर		रामपुर		खरगूपुर
688	रामपुर	प्रानपुर	प्रानपुर	12	रामपुर	प्रानपुर	प्रानपुर
	रामपुर		गहरौल		रामपुर		गहरौल
689	रामपुर	सैदीपुर	सैदीपुर	13	रामपुर	सैदीपुर	सैदीपुर
	रामपुर		रसवदिया		रामपुर		रसवदिया
690	रामपुर	गन्धौना	गन्धौना	14	रामपुर	गन्धौना	गन्धौना
691	रामपुर	भिउरा	भिउरा	15	रामपुर	भिउरा	भिउरा
	रामपुर		अकरा		रामपुर		अकरा

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
692	रामपुर	सेहरा	सेहरा	16	रामपुर	सेहरा	सेहरा
	रामपुर		कठार		रामपुर		कठार
693	रामपुर	सेमुही	सेमुही	17	रामपुर	सेमुही	सेमुही
	रामपुर		चतुर्भुजपुर		रामपुर		चतुर्भुजपुर
694	रामपुर	सपही	सपही	18	रामपुर	सपही	सपही
	रामपुर		अलीपुर		रामपुर		अलीपुर
	रामपुर		नरसिंहदासपुर		रामपुर		नरसिंहदासपुर
	रामपुर		चकअलीपुर		रामपुर		चकअलीपुर
695	रामपुर	पचुरखी जालिम सिंह	पचुरखी जालिम सिंह	19	रामपुर	पचुरखी जालिम सिंह	पचुरखी जालिम सिंह
	रामपुर		पचुरखी देवी प्रसाद		रामपुर		पचुरखी देवी प्रसाद
	रामपुर		पचुरखी कालिका प्रसाद		रामपुर		पचुरखी कालिका प्रसाद
696	रामपुर	जीतापुर	जीतापुर	20	रामपुर	जीतापुर	जीतापुर
	रामपुर		परसुपुर		रामपुर		परसुपुर
697	रामपुर	सकरा	सकरा	21	रामपुर	सकरा	सकरा
	रामपुर		जीतापुर		रामपुर		जीतापुर
							बहेडुवा
698	रामपुर	परमालपुर	परमालपुर	22	रामपुर	परमालपुर	परमालपुर
699	रामपुर	देहुआं	देहुआं	23	रामपुर	देहुआं	देहुआं
700	रामपुर	रघुनाथपुर	रघुनाथपुर	24	रामपुर	रघुनाथपुर	रघुनाथपुर
	रामपुर		दूबेपुर		रामपुर		दूबेपुर
701	रामपुर	रामपुर निस्फी	रामपुर निस्फी	25	रामपुर	रामपुर निस्फी	रामपुर निस्फी
	रामपुर		चकमैगर		रामपुर		चकमैगर
702	रामपुर	भरथीपुर	भरथीपुर	26	रामपुर	भरथीपुर	भरथीपुर
703	रामपुर	भानापुर	भानापुर	27	रामपुर	भानापुर	भानापुर
	रामपुर		नेवादा		रामपुर		नेवादा
704	रामपुर	सिधवन	सिधवन	28	रामपुर	सिधवन	सिधवन
	रामपुर		चकबबुरिया		रामपुर		चकबबुरिया
705	रामपुर	पचवल	पचवल	29	रामपुर	पचवल	पचवल
	रामपुर		चकछांगुर		रामपुर		चकछांगुर
706	रामपुर	पट्टीजियाराम	पट्टीजियाराम	30	रामपुर	पट्टीजियाराम	पट्टीजियाराम
	रामपुर		कबीरूद्दीनपुर		रामपुर		कबीरूद्दीनपुर
	रामपुर		चककरियांवा		रामपुर		चककरियांवा

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
707	रामपुर	पट्टीभरतराय	पट्टीभरतराय	31	रामपुर	पट्टीभरतराय	पट्टीभरतराय
	रामपुर		मोहनपुर		रामपुर		मोहनपुर
708	रामपुर	काकोपुर	काकोपुर	32	रामपुर	काकोपुर	काकोपुर
	रामपुर		भगवानपुर		रामपुर		भगवानपुर
	रामपुर		चकरौरा		रामपुर		चकरौरा
709	रामपुर	पट्टीकीरतराय	पट्टीकीरतराय	33	रामपुर	पट्टीकीरतराय	पट्टीकीरतराय
	रामपुर		चुनगुनपुर		रामपुर		चुनगुनपुर
	रामपुर		चकपड़री		रामपुर		चकपड़री
	रामपुर		नगेसरा		रामपुर		नगेसरा
710	रामपुर	सरायडीह	सरायडीह	34	रामपुर	सरायडीह	सरायडीह
711	रामपुर	भदखिन	भदखिन	35	रामपुर	भदखिन	भदखिन
712	रामपुर	बासूपुर	बासूपुर	36	रामपुर	बासूपुर	बासूपुर
713	रामपुर	नोनरा	नोनरा	37	रामपुर	नोनरा	नोनरा
	रामपुर		कसेरू		रामपुर		कसेरू
	रामपुर		कोहड़ौर		रामपुर		कोहड़ौर
714	रामपुर	पूरेदयाल	पूरेदयाल	38	रामपुर	पूरेदयाल	पूरेदयाल
	रामपुर		सोरहा		रामपुर		सोरहा
	रामपुर		हाजीपुर		रामपुर		हाजीपुर
	रामपुर		बोरिया		रामपुर		बोरिया
715	रामपुर	पृथ्वीपुर	पृथ्वीपुर	39	रामपुर	पृथ्वीपुर	पृथ्वीपुर
716	रामपुर	अड़ियार	अड़ियार	40	रामपुर	अड़ियार	अड़ियार
	रामपुर		अराजी अड़ियार		रामपुर		अराजी अड़ियार
717	रामपुर	कठवतिया	कठवतिया	41	रामपुर	कठवतिया	कठवतिया
	रामपुर		चिलाई		रामपुर		चिलाई
718	रामपुर	घाघरपुर	घाघरपुर	42	रामपुर	घाघरपुर	घाघरपुर
719	रामपुर	करोंदी कला	करोंदी कला	43	रामपुर	करोंदी कला	करोंदी कला
	रामपुर		अराजी खुर्द		रामपुर		अराजी खुर्द
	रामपुर		अराजी करोंदी		रामपुर		अराजी करोंदी
	रामपुर		करोंदी खुर्द		रामपुर		करोंदी खुर्द
720	रामपुर	हरिहरपुर	हरिहरपुर	44	रामपुर	हरिहरपुर	हरिहरपुर
721	रामपुर	मुरकटिया	मुरकटिया	45	रामपुर	मुरकटिया	मुरकटिया

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
722	रामपुर	नूरपुर	नूरपुर	46	रामपुर	नूरपुर	नूरपुर
723	रामपुर	जामडीह	जामडीह	47	रामपुर	जामडीह	जामडीह
724	रामपुर	कमरुद्दीनपुर	कमरुद्दीनपुर	48	रामपुर	कमरुद्दीनपुर	कमरुद्दीनपुर
725	रामपुर	सुरेरी	सुरेरी	49	रामपुर	सुरेरी	सुरेरी
726	रामपुर	कोचारी	कोचारी	50	रामपुर	कोचारी	कोचारी
727	रामपुर	मलेथू	मलेथू	51	रामपुर	मलेथू	मलेथू
	रामपुर		हीरापट्टी		रामपुर		हीरापट्टी
728	रामपुर	राईपुर	राईपुर	52	रामपुर	राईपुर	राईपुर
	रामपुर		अराजी माफी		रामपुर		अराजी माफी
729	रामपुर	मुगौना	मुगौना	53	रामपुर	मुगौना	मुगौना
	रामपुर		सरैया		रामपुर		सरैया
	रामपुर		पटखौली		रामपुर		पटखौली
730	रामपुर	पटैला	पटैला	54	रामपुर	पटैला	पटैला
	रामपुर		घोरहा		रामपुर		घोरहा
731	रामपुर	पालहनपुर	पालहनपुर	55	रामपुर	पालहनपुर	पालहनपुर
732	रामपुर	जगदीशपुर	जगदीशपुर	56	रामपुर	जगदीशपुर	जगदीशपुर
	रामपुर		जमुआं		रामपुर		जमुआं
733	रामपुर	भानपुर	भानपुर	57	रामपुर	भानपुर	भानपुर
734	रामपुर	नोनारी	नोनारी	58	रामपुर	नोनारी	नोनारी
	रामपुर		चककन टुटवा		रामपुर		चककन टुटवा
735	रामपुर	आकोपुर	आकोपुर	59	रामपुर	आकोपुर	आकोपुर
	रामपुर		पूरेनोनिया		रामपुर		पूरेनोनिया
	रामपुर		रेभानपुर		रामपुर		रेभानपुर
736	रामपुर	जयसिंहपुर	जयसिंहपुर	60	रामपुर	जयसिंहपुर	जयसिंहपुर
737	रामपुर	चकईपुर	चकईपुर	61	रामपुर	चकईपुर	चकईपुर
738	रामपुर	हथेरा	हथेरा	62	रामपुर	हथेरा	हथेरा
739	रामपुर	बल्लीपुर	बल्लीपुर	63	रामपुर	बल्लीपुर	बल्लीपुर
	रामपुर		महथिया		रामपुर		महथिया
740	रामपुर	पूरेलला	पूरेलला	64	रामपुर	पूरेलला	पूरेलला
	रामपुर		खरगसीपुर		रामपुर		खरगसीपुर
741	रामपुर	सहिजनी	सहिजनी	65	रामपुर	सहिजनी	सहिजनी
	रामपुर		नागौर		रामपुर		नागौर
	रामपुर		दुबान		रामपुर		दुबान
	रामपुर		शेषपुर		रामपुर		शेषपुर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
742	रामपुर	काजीहद	काजीहद	66	रामपुर	काजीहद	काजीहद
	रामपुर		अराजी सिकरौर		रामपुर		अराजी सिकरौर
743	रामपुर	लगधरपुर	लगधरपुर	67	रामपुर	लगधरपुर	लगधरपुर
	रामपुर		कोहड़ा		रामपुर		कोहड़ा
	रामपुर		कोहड़र		रामपुर		कोहड़र
744	रामपुर	गोथू	गोथू	68	रामपुर	गोथू	गोथू
745	रामपुर	मढी	मढी	69	रामपुर	मढी	मढी
746	रामपुर	बेनीपुर	बेनीपुर	70	रामपुर	बेनीपुर	बेनीपुर
	रामपुर		चत्तूरपुर		रामपुर		चत्तूरपुर
	रामपुर		केशवपुर		रामपुर		केशवपुर
747	रामपुर	सिकरौर	सिकरौर	71	रामपुर	सिकरौर	सिकरौर
	रामपुर		कुशहां		रामपुर		कुशहां
748	रामपुर	राजापुर	राजापुर	72	रामपुर	राजापुर	राजापुर
749	रामपुर	घनेथू	घनेथू	73	रामपुर	घनेथू	घनेथू
750	रामपुर	भोड़ा	भोड़ा	74	रामपुर	भोड़ा	भोड़ा
	रामपुर		अराजी भोड़ा		रामपुर		अराजी भोड़ा
	रामपुर		सीठूपुर		रामपुर		सीठूपुर
751	रामपुर	शेखपुर	शेखपुर	75	रामपुर	शेखपुर	शेखपुर
	रामपुर		दलपतपुर		रामपुर		दलपतपुर
	रामपुर		महारथपुर		रामपुर		महारथपुर
	रामपुर		डेढ़न्सा		रामपुर		डेढ़न्सा
752	रामपुर	ठाटर	ठाटर	76	रामपुर	ठाटर	ठाटर
	रामपुर		चकबढ़वल		रामपुर		चकबढ़वल
753	रामपुर	रिकेवीपुर	रिकेवीपुर	77	रामपुर	रिकेवीपुर	रिकेवीपुर
754	रामपुर	कोलवारी	कोलवारी	78	रामपुर	कोलवारी	कोलवारी
755	रामपुर	धनन्जयपुर	धनन्जयपुर	79	रामपुर	धनन्जयपुर	धनन्जयपुर
	रामपुर		किशुनपुर		रामपुर		किशुनपुर
	रामपुर		गड़वा वंशीधर		रामपुर		गड़वा वंशीधर
	रामपुर		गढ़वा हेमराज		रामपुर		गढ़वा हेमराज
	रामपुर		तालधनंजयपुर		रामपुर		तालधनंजयपुर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
756	रामपुर	महेवा	महेवा	80	रामपुर	महेवा	महेवा
	रामपुर		फत्तूपुर		रामपुर		फत्तूपुर
757	रामपुर	भरसथ	भरसथ	81	रामपुर	भरसथ	भरसथ
758	रामपुर	पूराजीवन	पूराजीवन	82	रामपुर	पूराजीवन	पूराजीवन
	रामपुर		जमालपुर		रामपुर		जमालपुर

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/486/2015-4/128 (जौनपुर)-2014, दिनांक 9 मार्च, 2015 एवं अधिसूचना संख्या 4/811/2017-4/128 (जौनपुर)-2017, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
किंजल सिंह,
निदेशक,
पंचायतीराज, उ० प्र०।